



1-नाबालिग के साथ गाली-गलौज,मारपीट करते हुये छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार,थाना कटघर:-

अवगत कराना है दिनांक 15.07.2022 को वादिनी निवासी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने,गन्दी-गन्दी गालिया देने व शिकायत करने की बात कहने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-415/22 धारा-323/354ए/506 भा0द0वि0 व 9जी/10 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया। उक्त के संबंध में आज दिनांक 10.09.2022 को उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त शालू उर्फ तसब्बुर पुत्र अनीस उर्फ तनवीर निवासी भदौरा नियर नफीस नगर थाना कटघर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-अवैध तमंचे सहित अभियुक्त गिरफ्तार,थाना नागफनी:-

अवगत कराना है आज दिनांक 10.09.22 को गश्त के दौरान का0 अंकित कुमार थाना नागफनी द्वारा मय का0 रामेश्वर के अभियुक्त मनि पुत्र नवल निवासी घोडा मन्दिर छडियो का मैदान थाना नागफनी, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ पकड़ा गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नागफनी पर मु0अ0सं0-141/22 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

3- तेरह(13) टन ई-कचरे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है दिनांक 09.09.2022 की रात्रि को चैकिंग के दौरान उ0नि0 श्री अफजाल अहमद थाना भोजपुर ने मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1.फैज पुत्र रोहिल निवासी ग्राम तहारपुर थाना मैनाठेर,मुरादाबाद 2. युसुफ पुत्र शोहराब अहमद निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना टाँडा,रामपुरा को गाडी नं0.- UP 21 CN 4353 में लदे 13 टन जले व अध-जले ई0कचरे व बरामदशुदा माल के फर्जी बिल सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-301/2022 धारा-269/270/420/467/468/469/471 भादवि व 3/8 ई0कचरा अधिनियम पंजीकृत किया गया। तथा वाहन को अंतर्गत धारा-207 एम्वीएक्ट में सीज किया गया।

4.थाना कुन्दरकी पुलिस ने लूट की घटना की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लूट जैसे गम्भीर अपराध की मिथ्या सूचना देने वाले 02 आरोपियों के किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 09-09-2022 को कॉलर मौ0 आसिम द्वारा अपने मोबाइल से इमरजेन्सी हेल्पलाइन नं0-112 पर कॉल करके सूचना दी कि उसके साथ एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा एक लाख रुपये (1,00,000/-) लूट लिये गये हैं। सूचना पर उ0नि0 श्री रणदीप सिंह मय हमराही पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर घटनास्थल एवं आस पास जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कॉलर मौ0 आसिम पुत्र बाबू निवासी जलालपुर थाना कुन्दरकी एवं उसके भाई मौ0 उवैश पुत्र बाबू निवासी जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद का अरबाज पुत्र यामीन निवासी हाथीपुर चित्तू थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद से करीब 02 माह पहले झगडा हुआ था इस संबंध में थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 197/2022 धारा 342/323/504/506 भादवि पंजीकृत है, जिस कारण कॉलर पक्ष विपक्षी अरबाज से रंजिश रखता है। पुलिस को मिथ्या इत्तिला देकर विपक्षी अरबाज आदि को पुलिस द्वारा झूठे अभियोग में गिरफ्तार कराकर जेल भिजवाने के आशय से कॉलर द्वारा डायल-112 नं0 पर मिथ्या इत्तिला देकर आपस में षड्यंत्र कर छल किया गया है। जबकि जांच उपरान्त कॉलर पक्ष के साथ लूट जैसी कोई घटना होना नहीं पाया गया। कॉलर मौ0 आसिम पुत्र बाबू द्वारा अपने भाई मौ0 उवैश व शाजिद पुत्र शाहिद निवासीगण जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद के साथ मिलकर छल कर आपराधिक षड्यन्त्र रचा गया। पुलिस को मिथ्या सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 198/2022 धारा 177, 182, 203, 418, 420, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त के क्रम आज दिनांक 10-09-2002 को थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मौ० आसिम व मौ० उवैश पुत्रगण बाबू निवासीगण जलालपुर थाना कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त मौ० आसिम पुत्र बाबू नि० जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद,

1- मु०अ०सं० 197/2022 धारा 342/323/504/506 भादवि

2- मु०अ०सं० 198 / 2022 धारा 177/182/203/418/420/120बी भादवि

***अभियुक्त मौ० उवैश पुत्र बाबू नि० जलालपुर थाना कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद ***

1- मु०अ०सं० 197/2022 धारा 342/323/504/506 भादवि

2- मु०अ०सं० 198 / 2022 धारा 177/182/203/418/420/120बी भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम

1- व०उ०नि० श्री कुलजीत सिंह थाना कुन्दरकी मुरादाबाद।

2- उ०नि० श्री अर्जुन त्यागी थाना कुन्दरकी मुरादाबाद।

3- हे०का० 85 सुधीर सिरौही थाना कुन्दरकी मुरादाबाद।

4- कां० 3093 रोहित कुमार थाना कुन्दरकी मुरादाबाद।

5- कां० 933 प्रदीप थाना कुन्दरकी मुरादाबाद।